

## HARYNA NAIB TEHSILDAR EXAM 2017 MOST EXPECTED TERMS :PART I

S.No	Terms	Description
1	आबादी देह	गाँव का बसा हुआ क्षेत्र ।
2	मौजा	ग्राम
3	हदबस्त	तहसील में गाँव का सिलसिलावार नम्बर ।
4	मौजा बेचिराग	बिना आबादी का गाँव ।
5	मिसल हकीयत	बन्दोबस्त के समय विस्तारपूर्वक तैयार की गई जमाबन्दी ।
6	जमाबन्दी	भूमि की मलकियत व बोनो के अधिकारों की पुस्तक ।
7	इन्तकाल	मलकियत की तबदीली का आदेश ।
8	खसरा गिरदावरी	खातेवार मलकियत, बोनो व लगान का रजिस्टर ।
9	लाल किताब	गाँव की भूमि से सम्बन्धित पूर्ण जानकारी देने वाली पुस्तक ।
11	शजरा नसब	भूमिदारों की वंशावली ।
12	पैमाईश	भूमि का नापना ।
13	गज	भूमि नापने का पैमाना ।
14	अडडा	जरीब की पडताल करने के लिए भूमि पर बनाया गया माप ।
15	जरीब	भूमि नापने की 10 कर्म लम्बी लोहे की जंजीर ।
16	गठठा	57.157 ईंच जरीब का दसवां भाग ।
17	क्रम	66 ईंच लम्बा जरीब का दसवां भाग ।
18	क््रास	लम्ब डालने के लिए लकड़ी का यन्त्र ।
19	झण्डी	लाईन की सीधार्ई के लिए 12 फुट का बांस ।
20	फरेरा	दूर से झण्डी देखने के लिए बांस पर बंधा तिकोना रंग बिरंगा कपडा ।
21	सूए	पैमाईश के लिए एक फुट सरिया ।
22	पैमाना पीतल	म्सावी बनाने के लिए पीतल का बना हुआ ईंच ।

23	म्ुसावी	मोटे कागज पर खेतों की सीमायें दशनि वाला नक्शा ।
24	शजरा	खेतों की सीमायें दिखाने वाला नक्शा ।
25	शजरा किस्तवार	ट्रैसिंग क्लायथ या ट्रैसिंग पेपर पर बना हुआ खेतों का नक्शा
26	शजरा पार्चा	कपडे पर बना खेतों का नक्शा ।
27	अक्स शजरा	शजरे की नकल (प्रति)
28	फिल्ड बुक	खेतों के क्षेत्रफल की विवरण पुस्तिका ।
29	बीघा	40ग40 वर्ग करम त्र4 बीघे का खेत ।
30	मुरब्बा	25 किलों की समूह यानि 200 कनाल
31	मुस्ततील	25 एकड का समूह यानि 200 कनाल
32	इस्तखराज	नम्बर की चारों भुजाओं की लम्बाई व चौडाई क्षेत्रफल निकालना
33	रकबा	खेत का क्षेत्रफल
34	किस्म जमीन	भूमि की किस्म
35	जमीन सफावार	खेतों का पृष्ठवार जोड
36	थमजान खातावार	जेतवार जोड
37	मिजान कुलदेह	गाँव के कुल क्षेत्रफल का जोड
38	जोड किस्मवार	गाँव की भूमि का किस्मवार जोड
39	गोशा	खेत का हिस्सा
40	त्तीमा	खेत का बांटा गया भाग
41	व्तर	कर्ण
42	बिसवांसी	57.157 ईंच कर्म का वर्ग
43	बिसवा	20 बिसवांसी
44	बिघा	20 बिसवा
45	अ्रला	9 सरसाही बारबर 30-1 @4 वर्ग गज त्र1 @20
46	कनाल	20 मरले 605त्र वर्ग गज त्र1 @8 एकड
47	एकड	एक किला (40 करमग 36 करम) 4 बीघे- 16 बिसवेत्र(4840 वर्ग गज)

49	शर्क	पूर्व
50	गर्व	पश्चिम
51	जनूब	दक्षिण
52	शुमाल	उत्तर
53	खेवट	मलकियत का विवरण
54	खतौनी	कशतकार का विवरण
55	पत्ती तरफ ठोला	गाँव में मालकों का समूह
56	गिरदावर (कानूनगो)	पटवारी के कार्य का निरीक्षण करने वाला
57	दफतर कानूनगो	तहसील कार्यालय का कानूनगो
58	नायब दफतर कानूनगो	सहायक दफतर कानूनगो
60	सदर कानूनगो	जिला कार्यालय का कानूनगो ।
61	वासल वाकी नवीस	राजस्व विभाग की वसूली का लेखा रखने वाला कर्मचारी
62	मालिक	भूमि का भू-स्वामी
63	कास्तकार	भूमि को जोतने वाला एवं कास्त करने वाला ।
64	मालक कब्जा	मालिक जिसका शामिलता में हिस्सा न हो ।
65	मालक कामिल	मालिक जिसका शामिलता में हिस्सा हो
66	शामलात	सांझा ी भूमि
67	शामलात देह	गाँव की शामिलता भूमि
68	शामलात पाना	पाने की शामिलता भूमि
69	शामलात पत्ती	पत्ती की शामिलता भूमि
70	शामलात ठौला	ठोले की शामिलता भूमि
71	मुजारा	भूमि को जोतने वाला जो मालिक को लगान देता हो ।
72	मौरूसी	बेदखल न होने वाला व लगान देने वाला मुजारा
73	गैर मौरूसी	बेदखल होने योग्य कास्तकार

74	छोहलीदार	जिसको भूमि दान दी जावे ।
76	नहरी	नहर के पानी से सिंचित भूमि ।
77	चाही नहरी	नहर व कुएं द्वारा सिंचित भूमि
78	चाही	कुएं द्वारा सिंचित भूमि
79	चाही मुस्तार	खरीदे हुए पानी द्वारा सिंचित भूमि ।
80	बरानी	वर्षा पर निर्भर भूमि ।
81	आबी	नहर व कुएं के अलावा अन्य साधनों से सिंचित भूमि ।
82	बंजर जदीद	चार फसलों तक खाली भूमि ।
83	बंजर कदीम	आठ फसलों तक खाली पडी भूमि ।
84	गैर मुमकिन	कास्त के अयोग्य भूमि ।
85	नौतौड	कास्त अयोग्य भूमि को कास्त योग्य बनाना ।
86	क्लर	शोरा या खार युक्त भूमि ।
87	चकौता	नकद लगान ।
88	सालाना	वार्षिक
90	बटाई	पैदावार का भाग ।
91	तिहाई	पैदावार का 1@3 भाग ।
92	निसफी	पैदावार का 1@2 भाग ।
93	पंज दुवंजी	पैदावार का 2@5 भाग ।
94	चहाराम	पैदावार का 1@4 भाग ।
95	तीन चहाराम	पैदावार का 3@4 भाग ।
97	मुन्द्रजा	पूर्वलिखित (उपरोक्त)
98	मजकूर	चालू
99	राहिन	गिरवी देने वाला ।
100	मुर्तीहिन	गिरवी लेने वाला ।
101	बाया	भूमि बेचने वाला ।

102	मुस्तरी	भूमि खरीदने वाला ।
103	वाहिब	उपहार देने वाला ।
104	मौहबईला	उपहार लेने वाला ।
105	देहिन्दा	देने वाला ।
106	गेरिन्दा	लेने वाला ।
107	लगान	मुजारे से मालिक को मिलने वाली राशी या जिंस
108	पैमाना हकीयत	शामलात भूमि में मालिक का अधिकारी ।
109	सरवर्क	आरम्भिक पृष्ठ ।
110	इण्डैक्स	पृष्ठ वार सूची ।
115	नक्शा कमीबेशी	पिछली जमाबन्दी के मुकाबले में क्षेत्रफल की कमी या वृद्धि
118	वाजिबुलअर्ज	ग्रामवासियों के ग्राम सम्बन्धी रस्में रीति रिवाज ।
119	थ्वरासत	उत्तराधिकार ।
121	मुतवफी	मृत्क
122	हिब्बा	उपहार ।
123	बैयहकशुफा	भूमि खरीदने का न्यायालय द्वारा अधिकार ।
124	श्रहन बाकब्जा	कब्जे सहित गिरवी ।
125	आड रहन	बिला कब्जा गिरवी ।
127	रहन दर रहन	मुर्तीहिन द्वारा कम राशि में गिरवी रखना ।
128	सैंकिण्ड रहन	राहिन द्वारा मुर्तीहिन के ईलावा किसी अन्य के पास गिरवी रखना ।
129	फकुल रहन	गिरवी रखी भूमि को छुड़ा लेना ।
133	तबादला	भूमि के बदले भूमि लेना ।
134	बैय	जमीन बेच देना
138	पडत सरकार	राजस्व रिकार्ड रूम में रखी जाने वाली प्रति ।
139	पडत पटवार	रिकार्ड की पटवारी के पास रखी जाने वाली प्रति ।
140	मुसन्ना	असल रिकार्ड के स्थान पर बनाया जाने वाला रिकार्ड ।

141	फर्द	नकल
142	फर्द बदर	राजस्व रिकार्ड में हुई गलती को ठीक करना ।
143	मिन	भाग
144	गिरदावरी	खेतों का फसलवार निरीक्षण ।
145	जिंसवार	फसलवार जिंसों का जोड़
147	फसल खरीफ	सावनी की फसल
148	खराबा	प्राकृतिक आपदा से खराब हुई फसल ।
149	फसल रबी	आसाढी की फसल ।
150	पुख्ता	औसत झाड पैदावार के अनुसार पक्की फसल
151	साबिक	भूतपूर्व, पूर्व, पुराना ।
152	हाल	वर्तमान, मौजूदा ।
153	बदस्तूर	जैसे का तैसा (पूर्ववत)
154	तकावी	फसल ऋण ।
155	कुर्की	अटैचमेंट
156	दसतक	राईट आफ डिमाण्ड
157	नीलाम	खुली बोली द्वारा बेचना ।
158	बिला हिस्सा	जिसमें भाग न हो ।
159	मिन जानिब	की ओर से ।
160	बनाम	के नाम ।
161	जलसाआम	जनसभा ।
162	बशनाखत	की पहचान पर ।
163	पिसर या वल्द	पुत्र
164	दुखतर	सुपुत्री
165	वालिद	पिता
166	वालदा	माता

167	बेवा	विधवा
168	वल्दीयत	पिता का नाम
169	हमशीरा	बहन
172	हद	सीमा
173	हदूद	सीमार्ये
174	सेहहदा	तीन गाँवों की एक स्थान पर मिलने वाली सीमाओं पर पत्थर
175	बखाना कास्त	कास्त के खाने में दर्ज ।
176	सकूनत	निवास स्थान
177	महकूकी	काटकर दोबारा लिखना
178	मसकूकी	बिना काटे पहले लेख पर दोबारा लिखना
179	बुरजी सरवेरी	सर्वेक्षण का पत्थर
180	चक तशखीश	बन्दोबस्त के दौरान भूमि की पैदावार के अनुसार तहसील की भूमि का निरधारण
181	दो फसली	वर्ष में दो फसलें उत्पन्न करने वाली भूमि
183	मेण्ड	खेत की सीमा
184	गोरा देह भूमि	गाँव के साथ लगती भूमि
185	हकदार	मालिक भूमि
186	इकरारनामा	आपसी फैसला
190	खुशहैसियत	अच्छी हालत
191	महाल	ग्राम
192	कलां	बड़ा
193	खुर्द	छोटा
194	जदीद	नया
195	मालगुजारी	भूमिकर
196	तरमीम	बदल देना

**KUSHMANDA IAS HCS ACADEMY (REGD)**  
**GT ROAD , OPP IB COLLEGE,PANIPAT**  
**HELPLINE:8607570992,9728926678**  
**www.kushmanda.com**

197	गोत	वंश का गोत्र
198	जमां	भूमि कर
199	झलार	नदी नाले से पानी देने का साधन
201	कारगुजारी	प्रगति रिपोर्ट
202	खाका	प्रारूप

Kushmanda Distance Learning Programme for Naib Tehsildar Exam 2017

#### **What you will get**

- Complete Study Material(Updated 2017)
- Practice Test Paper (Most Realistic Practice/Updated 2017 )
- Expert Support ( through email kushmandaeducation@gmail.com)
- English/Hindi Medium

Fee-6000/- Rs

**(FOR FREE ONE SAMPLE MOCK TEST & MODEL ANSWERS CALL US OR SMS US  
Helpline: 08607570992, 09728926678, email kushmandaeducation@gmail.com )**

Fee has to be paid-by **Cash on Delivery** or by DD/Cheque for the full amount favoring  
KUSHMANDA EDUCATION SERVICES PVT LTD payable at PANIPAT .Trust, quality and reliability  
the bywords for KUSHMANDA EDUCATION SERVICES PVT LTD will remain our guiding force for  
both Preliminary as well as Main Exam.